

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 मार्च 2020—चैत्र 4, शक 1942

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2020

क्र. एफ-4-3-2020-उन्तीस-1.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 और धारा 5 के साथ पठित एस.ओ. 681 (ई), दिनांक 30 नवम्बर 1974 तथा भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना जो का. आ. 1197 (अ), दिनांक 21 मार्च 2020 के अनुसरण में, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर नियंत्रण आदेश, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

1. इस आदेश की कण्डिका-2 की उपकण्डिका “ख” के पश्चात् निम्नलिखित नवीन कण्डिका स्थापित करती है:—

“(ग) “कीमत” से अभिप्रेत है, ऐसी कीमत जो इन आवश्यक वस्तुओं के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए.”

2. इस आदेश की कण्डिका-3 के पश्चात् नवीन कण्डिका-3(अ) निम्नानुसार स्थापित करती है:—

“3 अ कोई भी व्यापारी इन आवश्यक वस्तुओं को ऐसी निर्धारित कीमत जो भारत सरकार द्वारा घोषित की जाए, से अधिक कीमत पर विक्रय नहीं करेगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2020

क्र. एफ-4-3-2020-उन्तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-3-2020-उन्तीस-1, दिनांक 24 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 24th March 2020

No. F-4-3-2020-XXIX-1.—In exercise of the powers conferred under section 3 and 5 of Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with S. O. 681 (E), dated 30th November 1974 (No. 10 of 1955) and in pursuance to notification of Central Government published under Ministry of Consumer Affairs (Department of Consumer Affairs) S. O. 1197 (A), dated 21st March 2020, the State Government, hereby, makes the followings amendments in the Madhya Pradesh Mask (2 ply and 3 ply surgical mask, N 95 mask) and Hand Sanitizer, Control Order, 2020, namely:—

AMENDMENT

1. After sub-clause 'B' the clause 2 of this order, the following clause is inserted:—

“(C) “Price” means such a price ask fixed by Government of India in respect of essential commodities at different time intervals.

2. After clause '3' of this order, a new clause 3(A) is inserted as under:—

“3 A No trader sell the essential commodities at the price more than the price declared by Government of India in this regard.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B. K. CHANDEL, Dy. Secy.